

B.Com. (Part—III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note :—(1) Attempt **ALL** questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. (a) Explain the role of E-Banking in the development of Banking Sector. Discuss its merits and demerits. 14

OR

- (b) Explain the structure of Banking in India. Explain the various kinds of Bank. 14
2. (a) State the function of Co-operative Bank. 4
- (b) Explain the importance of Regional Rural Bank. 4
- (c) State the significance of Development Bank in Economic development. 3
- (d) What do you mean by Co-operative Bank ? 3

OR

- (e) State the objective of Development Bank. 4
- (f) Explain the importance of Regional Rural Bank in rural development. 4
- (g) State the importance of Co-operative Banks. 3
- (h) Explain the concept of Development Bank. 3
3. (a) What is Private Bank ? Explain its role in Indian Economy. 14

OR

- (b) Write in detail the function of Commercial Bank. 14
4. (a) Write the brief History of S.B.I. 4
- (b) Explain the measures of monetary policy. 4
- (c) State the objectives of R.B.I. 3
- (d) Explain the functions of S.B.I. 3

OR

- (e) Explain the limitation of monetary policy. 4
- (f) Explain the role of S.B.I. in Economic Development. 4
- (g) Explain the management of S.B.I. 3
- (h) Explain the concept of "Bank Rate". 3
5. (a) Explain the features of Banking Regulation Act, 1949. 4
- (b) State the provisions regarding N.P.A. 4
- (c) Explain the regulation of Commercial Bank. 3
- (d) Give the brief History of Banking Regulation Act. 3

OR

- (e) Explain the regulation of Private Bank. 4
- (f) Explain the regulation of Foreign Bank by R.B.I. 4
- (g) Explain the main provisions of Banking Regulation Act. 3
- (h) What is application of Banking Regulation Act ? 3

B.Com. (Part—III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

नोट :— (1) सर्व प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) बँकींग क्षेत्राच्या विकसात ई-बँकींग ची भूमिका स्पष्ट करा त्याच्या गुणगोषाची वर्गीकरण करा. 14
किंवा
(ब) भारतीय बँकींग संरचना स्पष्ट करा खासगी विविध प्रकार स्पष्ट करा 14
2. (अ) सहकारी अधिकोषाची कार्ये सांगा 4
(ब) क्षेत्रीय ग्रामीण अधिकोषाचे महत्त्व सांगा 4
(क) विकास अधिकोषाचे अधिकृत विकासाला मदत सांगा 3
(ड) सहकारी बँक पालन आजच्या काळात कोणते होते ? 3
किंवा
(इ) विकास बँकचे उद्दिष्टे सांगा 4
(फ) ग्रामीण विकासाला क्षेत्रीय ग्रामीण अधिकोषाचे महत्त्व स्पष्ट करा. 4
(ग) सहकारी अधिकोषाचे महत्त्व सांगा. 3
(ह) विकास अधिकोषाची संकल्पना स्पष्ट करा 3
3. (अ) खाजगी अधिकोष महत्त्वाचे कार्य ? भारतीय अर्थव्यवस्थेत खाजगी अधिकोषाची भूमिका स्पष्ट करा. 14
किंवा
(ब) वाणिज्य अधिकोषाची कार्ये सविस्तर लिखा 14
4. (अ) भारतीय स्टेट बँकेचा संक्षिप्त इतिहास लिखा 4
(ब) मोदीक धोरणाची साधने स्पष्ट करा 4
(क) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ची उद्दिष्टे सांगा 3
(ड) स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कार्य साद करा 3
किंवा
(इ) मोदीक धोरणाच्या मध्यात स्पष्ट करा 4
(फ) भारतीय स्टेट बँकेची अर्थिक विकासात भूमिका स्पष्ट करा 4
(ग) भारतीय स्टेट बँकेची व्यवस्थापन स्पष्ट करा. 3
(ह) "अधिकोष दर" संकल्पना स्पष्ट करा 3
5. (अ) अधिकोषण अधिनियम 1949 ची वैशिष्ट स्पष्ट करा 4
(ब) अनुत्पादकीय संपत्तीच्या (N.P.A) संदर्भात असणाऱ्या तरतुदी सांगा. 4
(क) व्यापारी बँकेचे नियमन स्पष्ट करा. 3
(ड) अधिकोषण नियमन कायदा ची संक्षिप्त इतिहास द्या. 3
किंवा
(इ) खाजगी अधिकोषाचे नियमन स्पष्ट करा 4
(फ) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विदेशी बँकांचे नियमन कोणते करते स्पष्ट करा ? 4
(ग) अधिकोषण अधिनियमाधीन मूख्य तरतुदी सांगा करा 3
(ह) अधिकोषण अधिनियम कायद्याचे उपयोगी काय आहे ? 3

B.Com. (Part—III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

नोट :— (1) सभी प्रश्न हल कीजिये।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) बैंकिंग क्षेत्र के विकास में ई-बैंकिंग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ई-बैंकिंग की लाभ-हानियों की चर्चा कीजिए। 14

अथवा

- (ब) भारतीय बैंकिंग की संरचना स्पष्ट कीजिये। बैंक के विभिन्न प्रकार स्पष्ट कीजिए। 14
2. (अ) सहकारी बैंक के कार्य बतलाइये। 4
- (ब) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का महत्व स्पष्ट कीजिये। 4
- (क) बैंक का आर्थिक विकास में महत्व बतलाइये। 3
- (ड) सहकारी बैंक से आप क्या समझते हैं ? 3

अथवा

- (इ) विकास बैंक के उद्देश्य बतलाइए। 4
- (फ) ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का महत्व विशद कीजिये। 4
- (ग) सहकारी बैंक का महत्व स्पष्ट कीजिये। 3
- (ह) विकास अधिकोष की संकल्पना स्पष्ट कीजिये। 3
3. (अ) निजी बैंक याने क्या ? भारत की अर्थव्यवस्था में निजी बैंक की भूमिका स्पष्ट कीजिये। 14

अथवा

- (ब) व्यापारिक बैंक के कार्यों को विस्तार से लिखिये। 14
4. (अ) भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास संक्षेप में लिखिये। 4
- (ब) मुद्रा नीति के साधनों को विशद कीजिये। 4
- (क) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य बतलाइये। 3
- (ड) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्य स्पष्ट कीजिये। 3

अथवा

- (इ) मुद्रानिति की मर्यादा स्पष्ट कीजिये। 4
- (फ) भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक विकास में भूमिका स्पष्ट कीजिये। 4
- (ग) भारतीय स्टेट बैंक का व्यवस्थापन विशद कीजिये। 3
- (ह) "अधिकोष दर" संकल्पना विशद कीजिये। 3
5. (अ) बैंक अधिनियम 1949 की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये। 4
- (ब) अनुत्पादकीय संपत्ति के संदर्भ में प्रावधान बताइए। 4
- (क) व्यापारिक बैंक के नियमन को विशद कीजिये। 3
- (ड) बैंक नियमन अधिनियम का इतिहास संक्षेप में दीजिये। 3

अथवा

- (इ) निजी बैंक का नियमन विशद कीजिये। 4
- (फ) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विदेशी बैंक नियमन को विशद कीजिये। 4
- (ग) बैंक अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये। 3
- (ह) बैंक नियमन अधिनियम का उपयोजन क्या है ? 3

